भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

सहायक निदेशक ग्रेड - ॥ / सहायक अभियंता की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट Form of Annual Performance Assessment Report of Assistant Director Grade —II /Assistant Engineers

Rep	ort for the Year/Period End	ling	
	<u>PA</u>	भाग-। व्येक्तिक ब्यौरे RT — 1 PERSONAL DATA	
(To	`	नय के सम्बद्ध प्रशासनिक अनुभाग द्वार e Section concerned of the Minis	•
1,	अधिकारी का नाम : Name of the Officer :		
2.	जन्म की तारीख : Date of Birth :		
3.	वर्तमान पद की नियुक्ति की तारीख : Date of appointment to present post :		
4.	क्या अधिकारी अनूसूचित जाति/अनूसूरि जनजाति से संबंध है । Whether the officer belongs to SC/ST :	घेत	
5.	वर्ष के दौरान, ड्यूटी से, छुट्टी, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण अनुपस्थित Period of absence from Duty on leave, training etc., during the year.	1	

भाग - 2 स्वमूल्यन Part II – Self Appraisal

(इसे वही अधिकारी भरे जिसके रिपोर्ट लिखी जा रही है) (To be filled by the Officer reported upon)

वर्ष के दौरान प्राप्त डिग्रियों, प्रकाशित पुस्तको लेख आदि सहित शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलिख्यियाँ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उल्लेख करना भी आवश्यक है। Academic and Professional achievements during the year including degrees obtained, books/articles published etc., the training course attended during the course of the reporting year need also be mentioned.

2	इस वर्ष	. 柱	तक की अवधि के दौरान
_	पूरा करने के लिए अधिकारी को सौंपे ग	ए कार्य और उनके लक्ष्य ।	
	CC .	targets assigned to the officer for	completion during
		to	

कृपया बताएं क्या पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के लिए अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण निर्धारित तिथि सीमा के अंदर अर्थात कलैंडर वर्ष के अनुगामी वर्ष को 31 जनवरी तक भरा गया था । यदि नहीं, तो विवरण भरने की तिथि दी जाए ।

Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calender year was filed within the prescribed date i.e. 31st January of the year following the calender year.

Date:

PART – III (TO BE FILLED IN BY THE REPORTING AUTHORITY) (कृपया प्रविष्टियाँ भरने से पहले प्रारूप के अंत मे दिए गए अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें)

(Please read carefully the instructions given at the end of the form before filling the entries)

1	क्या रिपोर्टिंग अधिकारी भाग-॥ में अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण से सहमत है	। यदि नही असहमति के
	कारणों सहित संक्षिप्त में उल्लेख करें	OPE TE

Does the Reporting Officer agree with all that is recorded under Part-II by the Officer. If not, enumerate precisely the extent of disagreement with and reason therefore.

	:				
		•			
•			•	•	

2. कार्य लिख्य (अधिकारी का निर्धारण स्केल 1-10 के पूर्णांक के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें 1 अंक को न्यूनतम ग्रेड और 10 अंको को सर्वोत्तम ग्रेड माना जाएगा ! इस भाग के अंको का महत्व 40% होगा)

Work Output (This assessment should rate the officer on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to the lowest grade and 10 to the best grade. Weightage to this Section will be 40%)

		रिपॉटिंग अधिकारी Reporting Officer	समीक्षा अधिकारी Reviewing Officer *	समीक्षा अधिकारी का आद्याक्षर Initial of Reviewing Officer
$\frac{1}{1}$	नियोजित कार्य का समापन/आबंटित कार्य			
	Accomplishment of planned works/ tasks			
	allotted			_
2.	विश्लेषणात्मक योग्यता			
	Analytical ability			
3.	कार्य निष्पादन की गुणवत्ता			
	Quality of output	<u> </u>		
4.	समयबद्धं कार्यों को करने की योग्यता			
	Ability to meet time targets			
5.	असाधारण/अप्रत्याशित कार्य का निष्पादन		ļ	
	Accomplishment of exceptional			
	work/unforeseen tasks	<u> </u>		
	समस्त कार्य निष्पादन की ग्रेडिंग			
	Overall grading on "Work Output"	<u> </u>		

^{*}कृपया स्तंभ-II, के भाग-V की टिप्पणी का अवलोकन करें !

^{*} Please see the notes in Part-V, Column. II

विशेषता : 3.

कार्य लिख्य (अधिकारी का निर्धारण स्केल 1-10 के पूर्णीक के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें 1 अंक को न्यूनतम ग्रेड और 10 अंको को सर्वोत्तम ग्रेड माना जाएगा । इस भाग के अंको का महत्व 30% होगा)

(This assessment should rate the officer on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to

the lowest grade and 10 to the best grade. Weightage to this Section will be 30%)

	the lowest grade and 10 to the best	रिपॉटिंग अधिकारी	समीक्षा अधिकारी	समीक्षा अधिकारी का आद्याक्षर
		Reporting	Reviewing	Initial of Reviewing
		Officer	Officer*	Officer
1.	कार्य के प्रति अभिवृति			
	Attitude to work			
2.	उत्तरदायित्व की भावना			
	Sense of responsibility			
3.	मनोभाव/स्वभाव की स्थिरता			
	Emotional stability/ temperament			
4.	अनुशासन का पातन	,		
	Maintenance of discipline			
5.	संप्रेषण निपुणता			
	Communication skills			
6.	अभिनव क्षमता			
	Innovativeness			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.	उत्तरदायित्व के प्रति तत्परता			
	Readiness to assume responsibility			
8.	संपूर्ण व्येक्तित्व			
	Overall personality			
9.	व्येक्तिक संबंध			
	Inter-personal relations			
	समस्त "अभियोग्यता" की ग्रेडिंग			
	Overall grading on "Attributes"			

कार्यात्मक क्षमता :

Functional Competency:

कार्य लिंह्य (अधिकारी का निर्धारण स्केल 1-10 के पूर्णांक के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें 1 अंक को न्यूनतम ग्रेड और 10 अंको को सर्वोत्तम ग्रेड माना जाएगा । इस भाग के अंको का महत्व 30% होगा)

(This assessment should rate the officer on a scale of 1-10, in whole numbers, with 1 referring to the lowest grade and 10 to the best grade. Weightage to this Section will be 30%)

		रिपेंटिंग	समीक्षा	समीक्षा अधिकारी का आद्याक्षर
		अधिकारी	अधिकारी	Initial of Reviewing
		Reporting	Reviewing	Officer
		Officer	Officer *	
1.	तकनीकी/अर्थिक क्षेत्रों के नियमों विनियमों/प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी कौशत की जानकारी			
	Knowledge in technical/ financial field and of Rules/ Regulations/ procedures and IT skills			
2.	नियोजन क्षमता			
	Planning Ability			
3.	पहल शक्ति			
	Decision making ability			
4.	पहल शक्ति			·
	Initiative			
5.	व्यवस्थित कार्य करने की क्षमता			
	Capacity to systematize work			
6.	समन्वय योग्यता			
	Coordination ability	<u> </u>	<u></u>	
7.	अधीन कर्मचारियों को प्रोत्साहन व्करने की क्षमता			
	Ability to motivate subordinates			
8.	टीम में कार्य करने की क्षमता			
	Capacity to work in a team			
	कार्यात्मक क्षमता की संपूर्ण ग्रेडिंग		[
	Overall grading on Functional Competency			

^{*} कृपया भाग-V के स्तंभ-II की टिप्पणी का अवलोकन करें I

^{*} Please see the notes in Part-V, Column. II

भाग-IV सामान्य PART-IV GENERAL

सत्यनिष्ठा	
Integrity:	
(कृपया सलंग्न	
(Please see	note attached)
कृपया यह बत	në कि क्या रिपोर्टिंग अधिकारी ने कोई लिखित अथवा मौखिक चेतावनी दी है अथवा कॉसलिंग की है और इसके बाद
कर्मचारी की	न्या प्रतिक्रिया हुई । licate whether the Reporting Officer (during the period/year of report) administered any
Please ind	oral warning or counseling and how the officer reacted thereafter.
WITECH OF	Old Walling O. Comments
	वकरी दाल दी गई विशेषनाओं की कलम तस्वीर । कपया सामार्थ्यक्षेत्र अधिकारी की समस्त योग्यताओं, कमजोर पक्षों के
خد ے	प्रकारी द्वारा दी गई विशेषताओं की कलम तस्वीर । कृपया सामार्थ्यक्षेत्र अधिकारी की समस्त योग्यताओं, कमजोर पक्षों के मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दों में) टिप्पणी करें ।
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	——र होन र विकास समित्री महोत्रील एउ लिएध्यर १०० जल्हा मा १८७५। कर १
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) रिव्याग कर 1
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) टिप्पणा कर । tre by Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of including areas of strength and lesser strengths and his attitude towards weaker sections
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) टिप्पणा कर । re by Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of re including areas of strength and lesser strengths and his attitude towards weaker sections
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) टिप्पणा कर । tre by Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of including areas of strength and lesser strengths and his attitude towards weaker sections
प्रति और सा	मार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दा म) टिप्पणा कर । tre by Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of er including areas of strength and lesser strengths and his attitude towards weaker sections

	~ " ~ " /	•		
	Overall Grading (on a		7	
	scale of 1-10):	1		
			•	
	•	•		
	•			
	•	विजे टि	ग अधिकारी के हस्ताक्षर	
			*	
		Signature of	the Reporting Authority	
स्थान :				
Place:			•	
rrace:	·	नाम बड़े अक्षरों में		
		-		
दिनांक	:	Name in Block lett	ers	
Date:		पदनाम :		
Date.	•	Designations		
		Designation:		
			•	
	92777 _ /	समीक्षा अधिकारी की अभियुक्ति		
		-	በመነያ ያ <i>ለ</i> ኤ ያ's ያጠባዬ 7	
	PART – V REMAF	KS OF THE REVIEWING AU	THUKITY	
1	समीक्षा अधिकारी के अधीन सेवावधि			
1.		a a series		
	Length of Service under the Rev	newing Authority	•	
Г				
			•	
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2.	क्या आप रिर्पोटिंग अधिकारी के भाग-॥ में र	संबंधित अधिकारी के कार्य निष्पादन और विधि	म्ब योग्यताओं के मूल्यांकन से सहमत हैं	
2.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec	ent made by the reporting office tion – III. ny of the numerical assessments p	मन योग्यताओं के मूल्यांकन से सहमत हैं लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्यांकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the	
2.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion – III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.)	लेए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the	
2.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्यांकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the	
2.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion – III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.)	लेए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the	
2.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion – III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.)	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्यांकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the	
•	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion – III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्यांकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the	
2.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion – III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	
٠.	(यदि आप निर्धारित किए गए किसी भी अंक करें और अपनी प्रविष्टियों को आद्याक्षर करें Do you agree with the assessm and the various attributes to Sec (In case you do not agree with a column provided for you in that se विचारों में मतभेद की स्थिति में ब्यौरों और	से असहमत हैं तो कृपया उस भाग मे आपके ent made by the reporting office tion — III. ny of the numerical assessments p ction and initial your entries.) हाँ Yes कारणों का उल्लेख किया जाए।	लिए निर्धारित स्तंभ में अपने मूल्योंकन रिकार्ड with respect to the work output lease record your assessment in the नहीं No	

जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जा रही है क्या वह किसी विशेष नियुक्ति के लिए योग्य है? यदि हॉ तो उसकी नियुक्ति की प्रकृति का सुम्नान दे Is the officer reported upon specifically suited for particular job? If so, the nature of placement should be suggested. रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा वी गई किशेषवाओं की कलम तस्त्रीर कृष्या सामार्थ्यकेत्र अधिकारी की समस्त योग्यतओं , कमजोर पक्षों के प्रति और सामार्थ्य केत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगरमा 100 शब्दों में) टिप्पणी करें Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections. संग्रीका करने वाले अधिकारी के हस्ताकर Signature of the Reviewing Authority माम बड़े अकरों में Name in Block letters पदनाम :	and just.	d upon is a member of Schedule caste/Tribe, please indicate specifically whether eporting Officer in assessing the performance of the SC/ST officer has been fair
हुआन दें । Is the officer reported upon specifically suited for particular job? If so, the nature of placement should be suggested. रिपोंटिंग अधिकारी द्वारा दी गई विशेषनाओं की करान तस्तीर । कृष्या सामार्थ्यक्षेत्र अधिकारी की समस्त योग्यताओं, कमजोर पक्षों के प्रति और सामार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शक्तों में) टिप्पणी करें । Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections.		
हुआन दें । Is the officer reported upon specifically suited for particular job? If so, the nature of placement should be suggested. रिपोंटिंग अधिकारी द्वारा दी गई विशेषनाओं की करान तस्तीर । कृष्या सामार्थ्यक्षेत्र अधिकारी की समस्त योग्यताओं, कमजोर पक्षों के प्रति और सामार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शक्तों में) टिप्पणी करें । Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections.	जिस अधिकारी की रिपोर्ट कि	लेखी जा रही है क्या वह किसी विशेष नियक्ति के लिए गोग्य है? यदि हों वो उसकी नियक्ति की प्रकृति का
रियोटिंग अधिकारी द्वाप दी गई विशेषताओं की कलन तस्तीर । कृप्या सामाध्यंक्षेत्र अधिकारी की सनस्त योग्यताओं, कमजोर पक्षों के प्रति और सामाध्यं क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दों में) टिप्पणी करें । Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections. संपूर्ण ग्रेडिंग (के स्केल के आधार पर) Overall Grading (on a scale of 1-10): प्रमीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बढ़े अक्षरों में Name in Block letters	सुझान दे ।	
और सामार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगमग 100 शब्दों में) टिप्पणी करें । Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections. संपूर्ण ग्रेविंग (के स्केल के आधार पर) Overall Grading (on a scale of 1-10): संभीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority : नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
और सामार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगभग 100 शब्दों में) टिप्पणी करें । Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections.		
और सामार्थ्य क्षेत्र सहित उसकी मनोवृत्ति पर (लगमग 100 शब्दों में) टिप्पणी करें । Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections. संपूर्ण ग्रेविंग (के स्केल के आधार पर) Overall Grading (on a scale of 1-10): संभीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority : नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Remarks on the pen picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser strengths and his attitude towards the weaker sections.		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters	Remarks on the pen words) on the over	n picture recorded by the Reporting Officer. Please comment (in about 100 rall qualities of the officer including the areas of strengths and lesser
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Overall Grading (on a scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
scale of 1-10): समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Name in Block letters		
Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Pe: Name in Block letters	संपूर्ण ग्रेडिंग (के स्केल के 3	आधार पर)
Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में Pe: Name in Block letters	Overall Grading (on	
Name in Block letters	Overall Grading (on	a
	Overall Grading (on	व समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम :	Overall Grading (on scale of 1-10):	व समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority
	Overall Grading (on scale of 1-10):	a समीक्षा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Authority नाम बड़े अक्षरों में

वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को गणितीय ग्रेड में भरे जाने के संबंध मे दिशानिर्देश Guidelines regarding filling up of APAR with numerical grading

- (i) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के स्तंभों को पर्याप्त समय देते हुए सावधानीपूर्वक एवं ध्यान से भरा जाए।
 The columns in the APAR should be filled with due care and attention and after devoting adequate time.
- (ii) ऐसी आशा की जाती है (कार्य लिख्य या योग्यताओं के सम्मुख दिए जाने वाले संपूर्ण ग्रेड) कि दिए जाने वाले निम्नतम ग्रेड 1 या 2 को अधिकारी की असफलता को विनिर्दिष्ट करते हुए पर्याप्त रूप से न्याय संगत ठहराया जाए और ठीक इसी तरह 9-10 के सर्वोत्तम ग्रेड को अधिकारी के कार्य निष्पादन को विनिर्दिष्ट करते हुए पर्याप्त रूप से न्यायोचित ठहराया जाए । ग्रेड 1-2 या 9-10 को दिए जाने की संभावना कम ही होती है यदि ये ग्रेड दिए भी जाते हैं तो इस स्थिति में कारण बताने की आवश्यकता है । रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले मौजूदा अधिकारी को वास्तिवक क्षमताओं की गहनता को ध्यान में रखते हुए ही अंकीय ग्रेड दे।

It is expected that any grading of 1 or 2 (against work output or attributes or overall grade) would be adequately justified in the pen-picture by way of specific failures and similarly, any grade of 9 or 10 would be justified with respect to specific accomplishments. Grades of 1-2 or 9-10 are expected to be rare occurrences and hence the need to justify them. In awarding a numerical grade the reporting and reviewing authorities should rate the officer against a larger population of his/her peers that may be currently working under them.

- (iii) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 8 और 10 के बीच के ग्रेड को "उत्कृष्ट" माना जाएगा और प्रोच्नित/सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से अनुपातिक संगणना के लिए ग्रेड 9 दिया जाएगा ।

 APARs graded between 8 and 10 will be rated as 'outstanding' and will be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for empanelment/promotion.
- (iv) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 6 और 8 के बीच के ग्रेड को "बहुत अच्छा" माना जाएगा और इसके लिए प्राप्तांक 7 दिया जाएगा ।

 APARs graded between 6 and short of 8 will be rated as 'very good' and will be given a score of 7.
- (v) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 4 और 6 के बीच के ग्रेड को "अच्छा" माना जाएगा और इसके लिए प्राप्तांक 5 दिया जाएगा ।

 APARs graded between 4 and 6 short of 6 will be rated as 'good' and given a score of 5.
- (vi) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 4 से नीचे दिए जाने वाले ग्रेड को जीरो माना जाएगा । APARs graded below 4 will be given a score of zero.

ट्रिप्पणीः सत्यनिष्ठासे संबंधित पद को भरने के लिए निम्नलिखित कार्य विधि का पालन किया जाना चाहिए:-NOTE:The following procedure should be followed in filling up the column relating to integrity.

यदि अधिकारी की सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है, तो ऐसा उल्लेख किया जाए। If the Officer's integrity is beyond doubt, it may be so stated.

यदि कोई संदेह या शंका हो तो मद खाली छोड़ दी जानी चाहिए और निम्न लिखित कार्रवाई की जानी चाहिए। If there is any doubt or suspicion, the column should be left blank and action taken as under :

एक अलग गुप्त टिप्पणी लिखकर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। इस टिप्पणी की प्रति गोपनीय रिपोर्ट सहित ऊपर के वरिष्ट अधिकारी को मेजी जानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि अनुवर्ती कार्रवाई शीघ की जाए। जिन मामलों में सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करना या गोपनीय टिप्पणी दर्ज करना संभव न हो वहां रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की स्थिति के अनुसार यह उल्लेख करना चाहिए कि या तो उसने अधिकारी का कार्य काफी समय तक नहीं देखा है। जिससे वह निश्चित राय कायम कर सके या उसने अधिकारी के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं सुनी है।

A separate secret note should be recorded and followed up. A copy of the note should also be sent together with the Confidential Report to the next superior Officer who will ensure that the follow up action is taken expeditiously. Where it is not possible either to certify the integrity or to record the secret note, the Reporting Officer should state either that he had not watched the officer's work for sufficient time to form a definite judgement or that he had heard nothing against the officer, as the case may be.

यदि अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, संन्देह या शंकाए दूर हो जाती है तो अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जानी चाहिए और गोपनीय रिपोर्ट में तदनुसार प्रविष्टि की जानी चाहिए। If, as a result of the follow up action, the doubts or suspicions are cleared, the officer's integrity should be certified and an entry made accordingly in the Confidential Report.

यदि संदेह या शंकाओं की पुष्टि हो जाती है तो यह तथ्य भी दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी को इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए

If the doubts or suspicions are reconfirmed, this fact should also be recorded and duly communicated to the officer concerned.

यदि अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, सन्देह या शंकाए न तो दूर होती है और न ही उनकी पुष्टि होती है. तो अधिकारी के आचारण पर और अधिक अवधि में निगरानी रखी जानी चाहिए और उसके बाद ऊपर (ख) और (ग) में बताए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

If as a result of the follow up action, the doubts or suspicions are neither cleared not confirmed the officer's conduct should be watched for a further period and thereafter action taken as indicated at (b) and (c) above.

(गृह मंत्रातय का कार्यातय ज्ञापन संख्या ५१/४/६४, स्थापना (क), दिनांक २६.६.६५) (Ministry of Home Affairs O.M. No. 51/4/64-Estt. (A), Dated 21.6.1965) जब एक रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी स्वयं या जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है, के प्रति सुस्पष्ट नहीं है, न तो वह सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करता अथवा विपरीत प्रविष्टी करता हैं या उसके पास ऐसी कोई सूचना है जिसके आधार पर विभागध्यक्ष को गोपनीय रिपोर्ट की जा सके उदाहरणार्थ जब एक सरकारी कर्मचारी एक दूरस्थ केन्द्र पर पदस्थ है तथा रिपोर्टिंग अधिकारी को उसके कार्य की गहन निगरानी के अवसर नहीं मिले हैं अथवा जब एक सरकारी कर्मचारी उनके अधीन बहुत कम अवधि के लिए कार्य किया है, अथवा लम्बी मिले हैं अथवा जब एक सरकारी कर्मचारी उनके अधीन अधिकारी सत्यनिष्ठा के कालम में इस आशय की प्रविष्टी छुट्टी आदि पर रहा है, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी सत्यनिष्ठा के कालम में इस आशय की प्रविष्टी करे कि सरकारी कर्मचारी ने उनके अधीन पर्याप्त समय तक कार्य नहीं किया है, जिससे कोई निश्चित अभ्युक्ति करे कि सरकारी कर्मचारी ने उनके अधीन पर्याप्त समय तक कार्य नहीं किया है, जिससे कोई निश्चित अभ्युक्ति करें कि अथवा उन्होंने सरकारी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कुछ नहीं सुना है, जैसा भी मामला हो। दे सकें अथवा उन्होंने सरकारी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कुछ नहीं सुना है, जैसा भी मामला हो। वर्ष व्यान वास्तविक ब्यान होगा जिसके लिए कोई आपित नहीं हो सकती। लेकिन यह आवश्यक होगा कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा के बारे में सुस्पष्ट राय देने के हर संमव प्रयास करे तािक यथासंभव शीघ वे एक साकारात्मक ब्यान देने में सक्षम हो सकें।

(भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विमाग का० ज्ञा० सं० ५१/४/७२–स्थापना, दिनांक २० मई, १६७२

When a Reporting Officer cannot in fairness to himself and to the Government servant reported upon, either certify integrity or make an adverse entry or even be in possession of any information which would enable him to make a secret report to the Head of the Department, i.e., when a Government servant is serving in a remote station and the Reporting Officer has not had occasion to watch his work closely or when a Government servant has worked under the Reporting Officer only for a brief period or has been on long leave, etc., the Reporting Officer should make an entry in the integrity column to the effect that he has not watched the Government servant's work for sufficient time to be able to make any definite remark or that he has heard nothing against the Government servant's integrity, as the case may be. This would be factual statement to which there can be no objection. But it is necessary that a superior officer should make every effort to form a definite judgement about the integrity of those working under him, as early as possible, so that he may be able to make a positive statement.

(G. I., D. P. & A. R., O.M. No. 51/4/72-Estt. (A) dated the 20th May, 1972)